

# कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं

भारत आगमन पर आपका स्वागत है। अगर आपको खाँसी, बुखार के लक्षण हों, या साँस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत चेक पोस्ट पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम से संपर्क करें।



1

खांसने और छींकने पर मुँह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें



2

बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोएं



3

जिन व्यक्तियों को खाँसी, साँस लेने में परेशानी या बुखार हो, उनके निकट संपर्क से बचें और दूरी बनाएं



4

अपनी आँख, नाक और मुँह को छूने से बचें